

22  
2/6



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (द.प.क.), खातीपुरा रोड, जयपुर-12

O/o The Principal Controller of Defence Accounts (SWC),

Khatipura Road, Jaipur-12

Fax No. 0141-2388463 Phone No. 0141-2388450, 458 Email : pcdaswc.cgda@nic.in



परिपत्र

सं. संवप/114/डीएडी/सा. पत्राचार

दिनांक: 01/06/2020

सेवामे,

प्रभारी अधिकारी  
समस्त अनुभाग  
(स्थानीय)

प्रभारी अधिकारी  
दुर्ग अभियंता

प्रभारी अधिकारी  
स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी

विषय: Recommendation no. 38 made by the department related Parliamentary standing Committee on personnel, public Grievance, Law and justice in its one hundredth report on demand of grant (2020-21) of the Ministry of personnel, public Grievances and pensions to strengthen the grievance redressal mechanism and make it more citizen friendly.

संदर्भ: मुख्यालय कार्यालय का पत्र संख्या AN/Grievance/Report/Meeting/Vol. VIII दिनांक 28.05.2020

\*\*\*\*\*

मुख्यालय कार्यालय का विषय से संबंधित संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) आपके सूचनार्थ प्रेषित है।

— ६२१०

व. लेखा अधिकारी (संवप)

प्रतिलिपि:

✓ ईडीपी अनुभाग  
(स्थानीय)

} वैबसाइट पर grievance page पर अपलोड एवं सभी उप कार्यालयों को मेल करने हेतु

व. लेखा अधिकारी (संवप)



कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,  
उलान बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी- 110010  
Controller General of Defence Accounts,  
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.-110010



शिकायत प्रकोष्ठ- Grievance Cell

No. AN/Grievance/Report/Meeting/Vol. VIII

Date: 28.05.2020

To,

1. The PCsDA/PIFAs/PCA(Fys)/CsDA/CsDA(Training Establishments) /IFAs /CsFA(Fys)
2. All Sections of HQrs Office.

Sub.:- Recommendation No. 38 made by the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievance, Law and Justice in its One Hundredth Report on Demand of Grant (2020 – 21) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions to strengthen the Grievance Redressal Mechanism and make it more citizen friendly.

\*\*\*\*\*

As per the directives of the Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievance, Law and Justice, Shri Rajeev Ranjan Kumar, IDAS, Dy. CGDA (AN) has been appointed as nodal authority to whom complaints against the orders / decisions of the department can be made.

2. It is requested that all the relevant materials whenever sought by the nodal authority may be provided at the earliest but not later than five working days.

This issues with approval of CGDA.

(Vinod Kumar)  
Grievance Officer

Copy to: -

1. Sh. Rajeev Ranjan Kumar, IDAS: - For Information please.  
Dy. CGDA (AN)

2. The Officer Incharge  
IT &S Wing (Local)

: - With the request to upload on CGDA website.

(Vinod Kumar)  
Grievance Officer